

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART I—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472] नई दिल्ली, बुध्द्वतिवार, नवम्बर 15, 1979/कार्तिक 24, 1901
No. 472] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 1979/KARTIKA 24, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1979

प्रसिखचना

क्र० प्र० 727(प्र):—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुमरण में, तथा तारीख 7 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3(ii) के असाधारण अंक में प्रकाशित तारीख 6 अक्तूबर, 1979 की अपनी प्रसिखचना संख्या 434/मणिपुर/79(2) को अधिकान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग, मणिपुर सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसरों को ऐसे सरकारी आफिसर के सामने उक्त सारणी की स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट मणिपुर राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।

सारणी

निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा
नाम

रिटर्निंग ऑफिसर

1	2
1. भ्रान्तरिक मणिपुर	उपामुक्त, मणिपुर केन्द्रीय (इम्फाल) ।
2. बाह्य मणिपुर (म.ज.जा.)	श्री ए०पी०शर्मा, आई०ए०एम० सचिव, विद्युत विभाग, मणिपुर ।

[सं० 434/मणिपुर/79(2)]

आवेक से,

एम०एल०चन्दा, प्रवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 9th November, 1979

NOTIFICATION

S.O. 727.— In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/MR/79(2) dated 6 October, 1979, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3(ii) dated 7 November, 1979, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Manipur, the Officer of Government specified in column 2 of the table below as the Returning Officer for the Parliamentary constituency in the State of Manipur specified in column 1 of the said Table against such Officer of Government :—

TABLE

Sl. No. and Name of Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1. Inner Manipur	Deputy Commissioner, Manipur Central (Imphal).
2. Outer Manipur (ST)	Shri A.P. Sharma, IAS, Secretary, Electricity Department, Manipur.

[No.434/MR/79(2)]

By Order,

M. L. CHANDA, Under Secy.